

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 नवंबर 2022

### प्रश्न -1

\_\_\_\_\_ 2021 के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश' के रूप में चुना गया था।

- A) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- B) दिल्ली
- C) जम्मू और कश्मीर
- D) पुडुचेरी

**सही उत्तर: C**

जम्मू और कश्मीर को 2021 के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश' घोषित किया गया है।

### प्रश्न -2

निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने 'दीए जलाओ, पटाके नहीं' अभियान शुरू किया?

- A) दिल्ली
- B) हरियाणा
- C) पुडुचेरी
- D) राजस्थान

**सही उत्तर: A**

दिल्ली सरकार ने 'दीए जलाओ, पटाके नहीं' अभियान शुरू किया। पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर में यह अभियान शुरू किया गया था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 नवंबर 2022

### प्रश्न -3

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को अपनी 'ब्लैक लिस्ट' में रखा है?

- A) अफगानिस्तान
- B) म्यांमार
- C) पाकिस्तान
- D) रूस

**सही उत्तर: B**

मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने म्यांमार को "ब्लैक लिस्ट" में रखा है।

### प्रश्न -4

निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 'काशी तमिल संगमम' नामक एक महीने का कार्यक्रम आयोजित करेगा?

- A) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- B) पर्यावरण और वन मंत्रालय
- C) शिक्षा मंत्रालय
- D) संस्कृति मंत्रालय

**सही उत्तर: C**

शिक्षा मंत्रालय 16 नवंबर से आयोजित होने वाले एक महीने के कार्यक्रम 'काशी तमिल संगमम' का आयोजन करने के लिए तैयार है।

### प्रश्न -5

किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को DGCA द्वारा एयरोड्रम लाइसेंस मिला है?

- A) गुजरात
- B) ओडिशा
- C) राजस्थान
- D) उत्तर प्रदेश

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 नवंबर 2022

**सही उत्तर: B**

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने ओडिशा के जयपुर हवाई अड्डे को एयरोड्रम लाइसेंस दे दिया है।

### प्रश्न -6

निम्नलिखित में से किस राज्य ने "ट्रीज़ आउटसाइड फ़ॉरेस्ट इन इंडिया (TOFI)" पहल शुरू की है?

- A) अरुणाचल प्रदेश
- B) असम
- C) जम्मू और कश्मीर
- D) त्रिपुरा

**सही उत्तर: B**

असम सरकार और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने 'ट्रीज़ आउटसाइड फ़ॉरेस्ट इन इंडिया (TOFI)' नाम से एक वनीकरण पहल शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है।

### प्रश्न -7

निम्नलिखित में से किस IIT ने 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022' प्राप्त किया?

- A) IIT दिल्ली
- B) IIT गुवाहाटी
- C) IIT कानपुर
- D) IIT मद्रास

**सही उत्तर: D**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT मद्रास) को भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 2022' से सम्मानित किया गया।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 नवंबर 2022

### प्रश्न -8

निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनीं?

- A) ली लिहुआ
- B) सैली राइड
- C) जेम्स शिगेटा
- D) एना मे वॉंग

**सही उत्तर: D**

प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री एना मे वॉंग अमेरिकी मुद्रा पर प्रदर्शित होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनीं।

### प्रश्न -9

\_\_\_\_\_ भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।

- A) इंडोनेशिया
- B) जापान
- C) UAE
- D) USA

**सही उत्तर: C**

वित्त वर्ष 2022 में अमेरिका और UAE भारत के लिए क्रमशः सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य बने हुए हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 04 नवंबर 2022

### प्रश्न -10

स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा "में भी सुभाष" अभियान शुरू किया गया था?

- A) दिल्ली
- B) गुजरात
- C) लद्दाख
- D) पंजाब

**सही उत्तर: C**

स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लेह से "में भी सुभाष" अभियान शुरू किया है।